

सवाल-जवाब करने की प्रक्रिया

पेटलुमा 2022

जो बाबा जी से सवाल पूछना चाहते हैं, उनका चुनाव हर सत्संग वाले दिन एक पर्ची निकालने के जरिये किया जायेगा। चुनाव एरिया हर रोज़ सुबह 7:00 बजे खुलेगा और 8:00 बजे बंद होगा, जिसके बाद सवाल पूछने वालों की पर्ची निकाली जाएगी। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हॉल में अपनी सीट रखकर, हॉल के पीछे सवाल-जवाब के चुनाव एरिया में आ जाएँ। अगर आप को सवाल पूछने के लिए नहीं चुना जाता है, तो आप अपनी सीट पर वापस चले जाएँ। चुनाव की प्रक्रिया खतम होने के बाद, कोई भी सवाल-जवाब की लाइन में नहीं लगे।

अगर सवाल अंग्रेज़ी, हिंदी या पंजाबी में न हों:

अगर आप अंग्रेज़ी, हिंदी या पंजाबी के इलावा किसी और भाषा में सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल लिखकर अनुवाद एरिया (ट्रांसलेशन स्टेशन) जो कि हॉल के पीछे के भाग पे है, ले आएँ। अनुवादक सेवादार आप के सवाल का अनुवाद करके, बड़े अक्षरों में एक खास फॉर्म पर लिख देंगे। अगर आपको लगता है कि आप की भाषा का अनुवादक नहीं होगा तो आप अपना सवाल पहले से किसी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करवा कर अपने साथ ले आएँ। एक बार आप को अनुवाद किया हुआ सवाल एक स्पेशल फॉर्म पर मिल जाए तो उस फॉर्म को ले कर आप सवाल-जवाब चुनाव एरिया में आ जाएँ।

सवाल जवाब के लिए हिदायतें:

डेरें ने सवालों के बारे में निम्नलिखित जानकारी देने को कहा है:

1. सवाल पूछने वालों की उम्र 18 या 18 से बड़ी होनी चाहिये।
2. सवाल छोटे और स्पष्ट होने चाहिये।
3. सिर्फ एक सवाल पूछना चाहिये।
4. सवाल सिर्फ रूहानियत के बारे में होने चाहिये ना की निजी, आर्थिक, सेहत, पारिवारिक या राजनीतिक समस्याओं के बारे में।
5. दूसरों कि ओर से सवाल ना पूछें।
6. लम्बे नोट, कविताएँ या चिट्ठियाँ ना पढ़ें।
7. जब बाबा जी आप के सवाल का जवाब दे रहें हों तो उनको बीच में ना टोकें। आप कुछ बोलने से पहले, उनको अपनी बात खतम करने दें।

अगर दो भाषाओं के लिए अलग अलग माइक्रोफोन हुए तो आप को उस लाइन में रखा जायेगा जिस लाइन की भाषा में आप सवाल पूछना चाहते हैं। आप को उसी भाषा में सवाल पूछना चाहिए।

कृपया याद रखें कि बाबा जी को उनकी सेहत, उनके परिवार या उनके वेश के बारे में सवाल न करें और ना ही नई फोटो और रिकॉर्डिंग के बारे में कोई सवाल करें। बाबा जी हमें याद दिलाते हैं कि यह मार्ग शिक्षा के बारे है ना की व्यक्तित्व या भौतिक रूप के बारे में।

डेरें से मिली हुई इन हिदायतों का पालन करके, हम अपना शुक्राना ज़ाहिर करें।

संगत के लिए निवेदन:

1. सत्संग प्रोग्राम के दौरान, किसी भी वक्त पर ताली ना बजाएं।
2. कृपया सवाल पूछने वालों की गोपनीयता का आदर करें और मुड़ कर उन्हें देखने की कोशिश ना करें।